

**कृष्णा हॉस्पिटल**  
CARING FOR YOUR LIFE  
आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं।  
आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं।  
आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं।  
आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं।

# 4797 करोड़ रुपए की पृथ्वी योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो और एमआरआईसी में समझौता जापान को भी हरी झंडी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 4797 करोड़ रुपए की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशा की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पृथ्वी विज्ञान योजना को 2021-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना में पांच उप-योजनाएँ, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडर्न अल्लोकन प्रणाली और सेवाएँ, महासागर सेवाएँ, मॉडर्न अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान तथा भूविज्ञान और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच शामिल हैं।



**मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला**  
का संवर्धन और और आर्थिक लाभ के लिए सेवाओं में अनुवाद शामिल है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त लघु उपग्रह के विकास के सहयोग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और मॉरीशस अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (एमआरआईसी) के बीच समझौता जापान को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां

हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसरो और एमआरआईसी के बीच एक नवंबर, 2023 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में हस्ताक्षरित एक समझौता जापान से अवगत कराया गया। यह समझौता जापान एक संयुक्त उपग्रह के विकास के साथ-साथ एमआरआईसी के भूकेंद्र के उपयोग पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने में मदद करेगा। संयुक्त उपग्रह के लिए कुछ उपग्रहणालियां भारतीय उद्योगों को भागीदारी के माध्यम से अपनाई जाएंगी और इससे उद्योगों को लाभ होगा। इस समझौता जापान पर हस्ताक्षर होने से इसरो और एमआरआईसी के बीच छोटे उपग्रह का संयुक्त कार्यान्वयन संभव हो सकेगा। उपग्रह कार्यान्वयन को 15 महीने की समय सीमा में पूरा करने का प्रस्ताव है। संयुक्त उपग्रह की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए है, जिसे भारत वहन करेगा।

# अगवा मालवाहक पोत एनवही लीला नॉरफोक को समुद्री लुटेरों से कराया रिहा, मार्कोस कमांडो ने दिखाई ताकत



नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अगवा मालवाहक पोत एनवही लीला नॉरफोक को समुद्री लुटेरों से रिहा करा लिया गया है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना के कमांडो मार्कोस के अगवा पोत पर पहुंचे से पहले ही समुद्री लुटेरे भाग गए थे। लाइबेरियाई झंडे वाले पोत के 21 सदस्यीय चालक दल में 15 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जो सुरक्षित हैं। पोत को सोमालिया के तट से बाहर लाया जाया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अगवा मालवाहक पोत एनवही लीला नॉरफोक को समुद्री लुटेरों से रिहा करा लिया गया है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना के कमांडो मार्कोस के अगवा पोत पर पहुंचे से पहले ही समुद्री लुटेरे भाग गए थे। लाइबेरियाई झंडे वाले पोत

लगा दिया था। आईएनएस चेन्नई ने शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 3:15 बजे अरब सागर में सोमालिया के तट के पास अगवा पोत को घेर लिया था। इस दौरान जवानों ने समुद्री लुटेरों को जहाज को छोड़ने की चेतावनी दी। उसके बाद भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो अगवा पोत पर उतरे और उसकी तलाशी ली तो कोई लुटेरा वहां मौजूद नहीं था।  
**पोत पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित**  
यूके समुद्री व्यापार संचालन (यूकेएमटीओ) एजेंसी ने बताया है कि पोत पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं। आईएनएस चेन्नई की निगरानी में उसे सोमालिया के तट से बाहर निकाला जा रहा है। इससे पहले यूकेएमटीओ से ही नौसेना को (शेष पृष्ठ 6 पर...)

# आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में बड़ा हादसा, ट्रेन में आग लगने से पांच लोगों की मौत



ढाका। बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले बड़ा हादसा हो गया, यहां शुक्रवार को एक यात्री ट्रेन में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि यह आगजनी अशांति फैलाने के लिए की गई है, क्योंकि विपक्ष ने राष्ट्रीय चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।  
**शहर जेसोर से राजधानी ढाका आ रही थी ट्रेन**  
अग्निशमन सेवा अधिकारी रकजाबुल हसन ने कहा कि बनावोल एक्सप्रेस में कम से कम चार डिब्बों में आग लग गई, जो पश्चिमी शहर जेसोर से राजधानी ढाका आ रही थी। पुलिस कामंडर खंजर अल मोहंमि ने कहा कि हमने पांच शव बरामद किए हैं।

# महादेव सट्टेबाजी एप केस में नया मोड़ : ईडी का दावा अपने पुराने बयान पर कायम है कथित कुरियर, नई चार्जशीट पेश

रायपुर। महादेव सट्टेबाजी एप मामले में फिर एक नया मोड़ आया है। इस केस में गिरफ्तार कथित कुरियर का दावा है कि वह अपने दिए पुराने बयान 'छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को नकदी 'डिलीवर' करने के लिए भेजा गया था' पर कायम है। इस संबंध में ईडी की ओर से कोर्ट को सूचना दी गई है कि कुरियर अपने दिए पुराने बयान पर कायम है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जनवरी को रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में कहा था कि दास ने 12 दिसंबर को एक नया बयान दर्ज कराया था, जिसमें वह अपने पुराने बयान से मुकर गया था। उसका 3 नवंबर को दिया बयान किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में दिया गया था, जो दास के वकील के साथ आया था। अब इस मामले में ईडी ने उम्मीद जताई है कि रायपुर कोर्ट 10 जनवरी को इस पूरक आरोप पत्र पर सजा लौगा। ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में कहा कि उसने

**ED का नया आरोप पत्र**  
5 लोगों को किया नामजद  
पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दुबई स्थित 99.46 करोड़ रुपये के एक फ्लैट और एक प्लॉट को जब्त किया है, क्योंकि उसने उसे जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी।  
**नया था मामला**  
विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण से ठीक पहले नवंबर में रायपुर के एक होटल से कुरियर असीम दास को गिरफ्तार किया था। उस दौरान उसने दावा किया था कि जब्त 5.39 करोड़ रुपये महादेव एप प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता 'बघेल' तक पहुंचाने के लिए दी गई थी। बाद में वह अपने बयान से मुकर गया था। इतना ही नहीं उसने कोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे इस मामले में उसे सॉलजिन फंसाया गया था। उसे जब्त अंग्रेजी भाषा में लिखे एक बयान पर हस्ताक्षर किया गया था, जबकि उसे यह भाषा ही नहीं आती। उसने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने कभी राजनेताओं को केश नहीं पहुंचाया और उन्हें सॉलजिन के तहत फंसाया जा रहा है। दास ने जेल में ईडी के डायरेक्टर और दूसरे बड़े अधिकारियों को लिखे लेटर में कहा कि उसे पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उसने अपनी गिरफ्तारी की परिस्थितियों के बारे में लेटर में जानकारी दी थी। हालांकि दास का बयान ईडी के बयान के विपरीत है। दास ने कहा था कि उसे रायपुर एयरपोर्ट से एक कार लेने के लिए कहा गया था और अज्ञात व्यक्ति ने कार में बैग में नगदी रखे थे। उसने आरोप लगाते हुए कहा था कि इस वीडियो के अनेक बाद उसे हिरासत में लिया (शेष पृष्ठ 6 पर...)

# कांग्रेस ने अलका लांबा को दी बड़ी जिम्मेदारी, वरुण चौधरी को बनाया एनएसयूआई का अध्यक्ष



नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को नेता डिसूजा की जगह दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा को अपनी महिला शाखा का प्रमुख नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे ने वरुण चौधरी को पार्टी की छत्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) का प्रमुख बनाया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनी लांबा को पिछले वर्ष कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया गया था। युवा अवस्था में अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत करने वाली लांबा वर्ष 1995 में बतौर एनएसयूआई उम्मीदवार के

रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छत्र संघ (डूयू) की अध्यक्ष चुनी गईं थीं। लांबा, 2014 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थीं लेकिन वह 2019 में वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आई थीं। वह वर्ष 2015 में चांदनी चौक विधानसभा सीट से विधायक बनी थीं। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि पार्टी निवर्तमान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा और निवर्तमान एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन के योगदान की सराहना करती है।

# कांग्रेस ने आम चुनाव के लिए बनाई क्लस्टर स्तर की छानबीन समितियां

नये दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में विभिन्न राज्यों का क्लस्टर बनाकर छानबीन समितियों का गठन किया है और वरिष्ठ नेताओं को इन क्लस्टरों की जिम्मेदारी सौंप गई है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार देर शाम यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने विभिन्न राज्यों को मिलाकर कुल पांच क्लस्टर बनाए हैं और क्लस्टरवाइज छानबीन समितियों का गठन किया है। पार्टी ने तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी का एक क्लस्टर बनाया है और वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी को इस क्लस्टर का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि विश्वजीत कदम तथा जिनेश मेवानी को सदस्य बनाया गया है।

इसी तरह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र गोवा ओडिशा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्लस्टर बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिश्रा को सौंप गई है और सुराज हेगड़े तथा शफी परामबिल को इसका सदस्य बनाया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, दमन-दीव तथा दार्द्र एवं नगर हवेली क्लस्टर का अध्यक्ष रजनी पाटिल को तथा कुष्णा अलावेर और प्रगत सिंह को सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्लस्टर का अध्यक्ष भूक चरण दास को तथा श्रीमती यशोमती ठाकुर और नीरज डंगी को (शेष पृष्ठ 6 पर...)

# गृह मंत्रालय ने घटिया दवाओं की आपूर्ति की सीबीआई जांच के लिए आदेश, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया स्वागत

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटिया दवाओं की आपूर्ति की सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया है। साथ ही ये भी जांच का आदेश जारी कि क्या ये दवाएं मोहल्ल कर्मीनिकों के माध्यम से भी वितरित की गई थीं। पिछले साल दिसंबर में इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि कथित तौर पर दवाएं गुणवत्ता मानक परीक्षण में विफल रही। दिल्ली के अस्पतालों में जीवन को खतरे में डालने की संभावना थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस जांच का स्वागत किया और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को जल्द निलंबित करने की मांग की। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैंने पिछले साल मार्च में पद संभाला था। इसके तुरंत बाद दवाओं का ऑर्डर करने के दिशा-निर्देश दिए थे। लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने इन दिशा-निर्देशों को पालन नहीं किया। इस मामले में मैं सीबीआई जांच का स्वागत करता हूँ, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है। उन्हें तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।

# छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स : केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब 31 जिलों में खिलाड़ियों को मिलेगी ट्रेनिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में अब 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। इस पर राज्य के खेल मंत्री टंकाम वर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के लिए 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी। इस पर खेल सचिव हिमशिखर गुप्ता ने इस अवसर पर श्रेष्ठ व्यक्त किया। खेल संचालक तथा श्रीवास्तव को सिन्हा ने कहा कि खेल संचालनायक के प्रस्ताव पर पूर्व में 24 जिलों में विभिन्न खेल विधाओं

की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की अधिक सुविधा मिलेगी, राज्य के खिलाड़ियों के लिए यह कदम मिला का पथर साबित होगा। इसी क्रम में अब जिला कोडगांव में तीरंदाजी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में फुटबॉल, गौरला पेंड्रा मरवाही में कबड्डी, सक्ती में फुटबॉल, कबीरधाम में कबड्डी, कोरिया में बैडमिंटन और मंडलाइगढ़ भरतपुर-चिरमिरी जिले में कबड्डी खेल की खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इस प्रकार अब राज्य के 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण

# छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लास शहर बना रायपुर, कचरा मुक्त 10 प्रमुख शहरों में राजधानी के साथ दुर्ग भी शामिल

रायपुर। केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में रायपुर को वाटर प्लास शहर की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले देशभर में 14 शहर वाटर प्लास की श्रेणी में आते थे, जिसके बाद रायपुर अब 15 वां शहर बन गया है। रायपुर प्रदेश का एकमात्र शहर है, जिसे इस श्रेणी में जगह मिली है। वहीं, गारुज फ्री सिटी में रायपुर ने पांचवां स्थान हासिल किया है। वहीं, दुर्ग शहर ने रायपुर को पछड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा अंबिकापुर को ओडीएफ प्लास प्लास के लिए चुना गया है। गारुज फ्री सिटी के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर और राजनांदगांव को भी स्टार रेटिंग मिली है। वहीं, 47 नगरीय निकायों को वन स्टार रेटिंग मिली है। इन सभी ने फाइव स्टार रेटिंग के लिए आवेदन किया था। इनमें रायपुर चार, दुर्ग से जालुल व भिलाई नगर,

स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर से निकलने वाले गंदे के पुनः उपयोग के लिए भी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत रायपुर में चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनवाए गए हैं। जिसके तहत पिछली बार भी वाटर प्लास के लिए आवेदन दिया गया था, जबकि पिछली बार सिर्फ ओडीएफ श्रेणी में ही रखा गया था, जबकि इस बार वाटर प्लास का तमगा रायपुर को दिया गया है। बता दें कि देशभर में एक बार फिर इंदौर शहर ने सफाई का परचम लहराया है। इंदौर ने स्वच्छता का सातवां आसमान छू लिया है। 11 जनवरी 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति खुद इंदौर को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलावा इंदौर नगर निगम पहुंच गया है। महापौर, निगमायुक्त और एमआइसी सदस्यों ने कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी है।

रायपुर। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैनपाट, चैतुरागढ़ जैसे हिल स्टेशन में शिमला, मनाली की तर्ज पर माल रोड बनाई जाएगी। सिरपुर को वल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराया जाएगा। राज्य शासन की ओर से इस वर्ष राजिम में कुंभ मेले का भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मसं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ मेला की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। प्रदेश में मैनपाट व अन्य हिल स्टेशन में शिमला, मनाली की तर्ज पर मालरोड बनाई जाएगी। सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरागढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाना है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश

के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।  
**माथी पुत्री मेला का नाम बदलना उचित नहीं - कांग्रेस**  
भाजपा द्वारा राजिम में होने वाले माथी पुत्री मेला का नाम राजिम कुंभ करने की तैयारी पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, तीज-त्वीहर, मेला, मंडई का नाम नहीं बदलना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने राज्य की संस्कृति को देश-दुनिया में पहचान देने जो काम किया गया है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से पुत्री माथी मेला के आयोजन के स्थान पर राजिम कुंभ मेला की तैयारी के निर्देश दिया गया है, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी भाजपा (शेष पृष्ठ 6 पर...)

# निवर्तमान कलेक्टर डोमन सिंह को दी गई भावभीनी विदाई

राजनांदगांव (दावा)। कलेक्टर डोमन सिंह को आज जिला पंचायत सभाकक्ष में भावभीनी विदाई दी गई। निवर्तमान कलेक्टर डोमन सिंह ने कल कि भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ। जिला प्रशासन में सभी ने टीम वर्क में काम किया और निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजनांदगांव जिले की टीम बहुत अच्छी है। एक परम्परा भी रही है और यह माना जाता रहा है कि राजस्व के रिकार्ड के संधारण में यहाँ बहुत ही अच्छे कार्य किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ कार्य करने का अवसर मिला। निर्वाचन कार्य के लिए लक्ष्य लेकर कार्य किया गया, ताकि सभी व्यवस्थित रहें और निर्वाचन कार्य बिना किसी तनाव के निर्विघ्न संपन्न हुआ। जिले में लोकहित से जुड़े विभिन्न तरह के नवाचार किए गए। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्मार्ट टीवी अभियान एवं मेरा परिवार हेल्मेट परिवार सफल रहा। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा निर्वाचन 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार ने कहा कि



**0 भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हुआ संपन्न**  
**0 जिले में लोकहित से जुड़े विभिन्न तरह के किए गए बेहतरीन नवाचार**  
**0 निवर्तमान कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य, उपलब्धियां एवं अनुभव रहे यादगार**  
**0 विधानसभा निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया सम्मानित**

निवर्तमान कलेक्टर डोमन सिंह के साथ डेढ़ वर्षों तक कार्य करने का अनुभव बहुत अच्छा एवं यादगार रहा। कलेक्टोरेट में अमृतदास का निर्माण कराया गया है। वहीं मां बस्लेश्वरी मंदिर जाने वाले पर्यटकों के लिए शक्ति पथ एवं शक्ति पथ कुटीर का निर्माण कराया गया। उनके द्वारा जिले में विभिन्न तरह के नवाचार किए गए। जिनमें गुड मार्निंग राजनांदगांव, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्मार्ट टीवी अभियान, मेरा परिवार हेल्मेट परिवार, सिलाई प्रशिक्षण, जोरातलाई एडवेंचर पार्क जैसे विभिन्न तरह के बेहतरीन नवाचार

# चेंबर के प्रदेश मंत्री राजा माखीजा का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन



**रक्तदान सहित आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जन्मदिन की बिखरी छटां**

राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कामर्स के महामंत्री एवं जिला भाजपा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजा माखीजा का शुक्रवार को 51वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जन्मदिन के अवसर पर शहर में बढ़ते कदम व छात्र युवा मंच द्वारा जहाँ रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री माखीजा ने स्वयं रक्तदान की, वहीं आस्था में बच्चों को भरपेट भोजन खिलाकर तथा अन्य सामग्री बांट कर उनके बीच अपने जन्मदिन की खुशियां बांटी। श्री माखीजा ने अपने जन्म दिन पर राजनांदगांव प्रवास पर आए विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का पैर छूकर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के आलोक बिंदल ने बताया कि समाजसेवी राजा माखीजा के 51वें जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के वरिष्ठ अनिल बरडिया, अजय भसीन आदि की उपस्थिति में जिले भर से आए 51 व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मानव मंदिर चौक में राजा माखीजा के जन्मदिन पर जमकर पटाखे फोड़े गए और केक काटकर और राजा भाई का मुंह मीठा कराते हुए खुशियां आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से चेंबर आफ कामर्स के जिलाध्यक्ष शरद अग्रवाल, कैट भिलाय्य राजू डगा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आलोक बिंदल कैट से संजय तेजवानी, अमित चंद्रवंशी चेंबर के जिला टीम से संजय रिडवाना, वरिष्ठ भाजपा नेता कोमल सिंह राजपूत, नागेश यदु, रासकुमार बाफना, संजय शर्मा, चंकी अग्रवाल, योगेश सारथी, सुधा पवार, चंद्रभानु जंजेल, मनोहर तोतवानी, घनश्याम वाधवानी, पवन गणशर्मा, प्रकाश वाधवानी, हरीश मोटलानी, गिरधारी पंजवानी आदि उपस्थित थे।

## पहला कॉलम...

### कल से जैन लीजेंड्स चैंपियन लीग

राजनांदगांव (दावा)। जैन समाज एवं संस्कृत फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाली जैन लिजेंड्स चैंपियन लीग की शुरुआत कल सात जनवरी से होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में जैन समाज के 35 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट मैच कराए जाएंगे। स्पर्धा में रोझाना छह मैच खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत शाम पांच बजे से होगी। संस्कृत फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार बैद ने बताया कि राजनांदगांव में इस तरह के आयोजन की शुरुआत पिछले साल से की गई है, यह स्पर्धा का दूसरा वर्ष है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में समाज के 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले खेलेप्रेमियों को अपने खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को शाम साढ़े पांच बजे होगा, जिसमें मुख्य अतिथि सकल जैन संघ के अध्यक्ष मनोज बैद, समाजसेवी रमेश ललवानी और समाजसेवी तिलोक बोहरा हैं। इस प्रतियोगिता में कुल बारह टीमों भाग ले रही है, आयोजन जैन बगीचा में होगा।

### रानीतराई रोड़ में मंडई 8 को

राजनांदगांव (दावा)। समीपस्थ ग्राम रानीतराई रोड़ में 8 जनवरी सोमवार को मंडई मेला का आयोजन किया गया है। रात्रि में मनोरंजन के लिए छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम 'हर हर महादेव छत्तीसगढ़ी' नाचा रखा गया है। उक्त जानकारी ग्राम के दयाल दास साहू ने दी।

### कल ग्राम दावा में मंडई मेला

राजनांदगांव (दावा)। ग्राम दावा (सिंगापुर) में कल 7 जनवरी दिन रविवार को समस्त ग्रामवासी के सहयोग से मंडई मेला कार्यक्रम होगा एवं 8 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 11 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम गवईहं मोहंटी वाले का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। डोमन साहू ने ग्रामवासियों सहित, क्षेत्रवासियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

### रमशीला बाई चंद्राकर का निधन

राजनांदगांव (दावा)। समीपस्थ ग्राम जंगलेसर निवासी 93 वर्षीय रमशीला बाई चंद्राकर का शुक्रवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को स्थानीय मुक्तिधाम में किया जाएगा। वे अपने पीछे भ्रातृपरा परिवार छोड़ गई हैं।

### गजानंद कामड़े का निधन

राजनांदगांव (दावा)। चंदन नगर मोतीपुर निवासी गजानंद कामड़े का आज रात निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अश्वस्थ चल रहे थे। शनिवार सुबह 11:00 बजे मोतीपुर मुक्तिधाम के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। स्वर्गीय श्री कामड़े, नीलकण्ठ, राजेश, दरवेश, कमलेश और कैलाश कामड़े के पिता थे।

**श्री कृष्णा (एयरकूल) में**  
रोजाना 4 खेलों में

समय : 12, 3, 6 व 9 बजे  
बास्केट की एडवेंस बुकिंग प्रारंभ है।  
**रेड चिल्ली प्राइव्शन क्लब**

**डंकी**  
कलाकार - शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन इरानी, विक्रम कोचर आदि  
ऑनलाईन बुकिंग paytm & bookmyshow.com

**SILVER SCREEN Multiplex**  
05th Jan To 11th Jan 2024

**Dunki** - 12:00, 03:00 06:30 & 09:30 pm  
**Safaar** - 12:00, 03:15, 06:00, 05:30 & 09:15 pm  
**Animal** - 12:30 and 08:45 pm  
Sumeet Mandi Mall, Rajnandgaon (C.G.) 8085600200

## स्कूल क्षेत्र एवं देश का इतिहास जानना जरूरी - मधुसूदन यादव



**0 स्टेट स्कूल में पुण्यतिथि पर याद किए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. कुंज बिहारी लाल चौबे**  
**0 1925 में अंग्रेजों का यूनियन जैक उतार कर स्टेट स्कूल में राष्ट्रध्वज फहराया था छात्र पं. चौबे ने**

राजनांदगांव (दावा)। संस्कारधानी राजनांदगांव के हृदयस्थली में स्थित स्टेट स्कूल में 5 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. पंडित कुंज बिहारी लाल चौबे की 80वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के साथ विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में दुर्गा जिला से पधारे स्वतंत्रता सेनानी चौबे जी की नातिन श्रीमती कल्पना मिश्रा एवं नाती दामाद साहित्यकार भारत भूषण मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अध्यक्षता स्टेट स्कूल के प्राचार्य एन एस पट्ट ने की। विशेष अतिथि के रूप में शहर के गणनाया नागरिक एवं भाजपा नेता हर्ष रामटेके, तरुण लहरवानी, ऋषि चौधरी, मनोहर साहू, पंकज कुंजरकर, मुकेश धुव, तरुण साहू, नरेश कोसरे, चंद्रभानु जंजेल, सुमित भाटिया, हकीम खान, नागेश यदु, संतोष सिंह एवं विनोद रजक मंच पर उपस्थित रहे। आयोजन समिति स्टेट स्कूल की तरफ से शिक्षक ए.पी. तिवारी ने प्रभावी मंच संचालन किया, आयोजन व्यवस्था में शिक्षक राजेंद्र अग्रवाल, हेमन सिंह, माधव सिंह, श्रीमती एस दाता, श्रीमती पी खोबागदे आदि तत्पर रहे। आभार प्रदर्शन श्रीमती सुशीला नेताम ने किया। कार्यक्रम में स्व. कुंज बिहारी चौबे के तैलचित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात वक्ताओं ने उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं सभासदों को संबोधित किया। स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव ने कक्षा ग्यारहवीं के टीएन छात्र सोमेश चंद्राकर एवं कक्षा दसवीं के टीएन छात्र कुष्ण कुमार सिन्हा को ग्यारह हजार रुपये प्रत्येक को नगद प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्टेट स्कूल के एक भूतपूर्व छात्र कुंज बिहारी लाल चौबे ने सन् 1925 में अंग्रेजों का यूनियन जैक उतार कर स्टेट स्कूल में राष्ट्रध्वज फहराया था और एक अन्य छात्र विद्यात अर्थशास्त्री जे के मेहता ने पूरी दुनिया में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग करने के विचार को अर्जित किया था, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम तमाम मुगल शासकों और अंग्रेजों के बारे में अवगत हैं किंतु अपने ही शहर के विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे के मेहता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंज बिहारी चौबे के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें अपने स्कूल क्षेत्र एवं देश का इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूलता है उसका पराभव बहुत जल्दी ही होता है। इसलिए आज से ही इन बातों को अपने जीवन में शामिल करें और अपने इतिहास एवं अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प लें। इससे पहले वक्ताओं में सर्वप्रथम शिक्षक खिलानंद साहू ने अपने अंजपूर्ण काव्यशैली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंज बिहारी लाल चौबे के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। दुर्ग के साहित्यकार भारत भूषण मिश्रा ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारा धन आप लोग है और आपका धन जिज्ञासा होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौबे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 1925 में चौबे जी ने बाव्यवस्था में स्टेट स्कूल में लगे अंग्रेजों के यूनियन जैक को उतारकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हम सभी को अपने स्वामीमान की उपस्थिति का एहसास कराया है। शाला के प्राचार्य एन.एस. पट्ट ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस शाला का अपना गौरवशाली इतिहास एवं परंपरा रही है और इस स्कूल ने एक से बढ़कर एक विभूतियों को पुष्पित एवं पल्लवित किया है जिनमें से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंज बिहारी लाल चौबे की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं और दूसरे हमारे मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के रूप में आज मंच पर विराजमान हैं। इन दोनों से आप सभी प्रेरणा लेकर स्वयं को और इस शाला को गौरवान्वित करने का प्रयास करें।

## एडीजे न्यायालय का फैसला: 2 वर्ष पूर्व हुई रहस्यपूर्ण हत्या की घटना में आरोपी को आजीवन कारावास

अम्बागढ़ चौकी (दावा)। अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत ग्राम सालह में 2 वर्ष पूर्व एक बोर गाड़ी में तमिलनाडु के कामगार बोर खुदाई का कार्य करने आये थे, जो छत्तीसगढ़ के कुछ कामगारों के साथ कार्य कर रहे थे, दिनांक 17 मई 2021 को सुबह एक मजदूर पुनीत राम सलामे को डेड बाँडी कार्यस्थल के पास ही सदिग्ध अवस्था में पाई गई, सदिग्ध घटनास्थल दर्दनाक तरीके से हुए हत्या के ओर इशारा कर रहा था, मृतक को अंतिम बाव उसके साथ काम करने वाले 2 तमिल कामगारों के साथ देखा गया था, लेकिन उन्होंने भी घटना के बाबत अनभिज्ञता जाहिर की। चौकी पुलिस थाना प्रभारी आशीर्वाद राहटगांवकर मामले कि विवेचना कर रहे थे, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि जिन सदिरथों से उनकी पूछताछ करनी थी उन्हें हिंदी नहीं आती थी और पुलिस को तमिल भाषा नहीं आती थी, खोजबीन करने पर एक तमिल भाषी व्यक्ति मिला जो हिंदी, तमिल दोनों भाषा जानता था। विवेचना क्रम में मुखबिर लगाए गए, गांव वालों के ब्यान लिए गए, दुर्भाग्ये के जरिये घंटी इंटरेशन चला, तमिल भाषियों के हावभाव व बाँडी लेंगवेज से कुछ भी समझ पाना मुश्किल लग रहा था, तब घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, वहाँ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनके बारे में दुर्भाग्ये को बतारत तमिल सदिरथ लोसे से पूछताछ की गई। तर्क-वितर्क पूर्ण तरीके से की गई पूछताछ में अंततः आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान, चौकी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल एडीजे राजनांदगांव की अदालत में आरोपी पणमुख सुंदरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त विधि से संवर्षत बालक का केस दूसरी अदालत में चल रहा है।

## पेशानर्स एसो. की संयुक्त बैठक 8 जनवरी को

राजनांदगांव (दावा)। पेशानर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला एवं तहसील नगर की बैठक दिनांक 08 जनवरी दिन सोमवार को 12:30 बजे डी.एन.साहू कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में पेशानर्स भवन ठाकुर प्यारेलाल स्कूल परिसर में रखी गई है। नए सदस्यों को सम्मान सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका सम्मान किया जायेगा। इस माह में जिन सदस्यों की जन्मतिथि है उनका जन्मदिन मनाया जायेगा। जो साथी हमसे बिछुड़ गए है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी। अतः कार्यकारी प्रांताध्यक्ष डी.एन. साहू जिलाध्यक्ष, महासचिव जी.आर. देवांगन, कोषाध्यक्ष गंदाय देवांगन, प्रांतीय महामंत्री के.पी.सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष एस.के.सिंह, नगर उपाध्यक्ष यश. डी. साव, तहसील अध्यक्ष जी.एल. सोनवोईर, नगर अध्यक्ष बी.टी.वाल्दे, कोषाध्यक्ष विजय लाल निपाद ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है, यह जानकारी बी.टी. वाल्दे नगर अध्यक्ष द्वारा दी गई।

## पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन 15 जनवरी तक

राजनांदगांव (दावा)। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी 15 जनवरी 2024 तक नवीन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2024 तक एवं स्वीकृति लॉक करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2024 तक है। ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव एवं स्वीकृति लॉक की कार्रवाई वेबसाइट <http://paestmatric-sch&larship.cg.nic/> पर की जा सकती है।

## छ.ग. शासन वन विभाग बिलासपुर, वनमंडल बिलासपुर (छत्तीसगढ़) कोटा काठागार नीलाम की संक्षिप्त सूचना

सर्व साधारण को सूचनाय प्रकाशित किया जाता है कि बिलासपुर वनमंडल के कोटा विक्रय काठागार डिणों (बिलासपुर) में संश्लित ईमारती, काष्ठ, जलाऊ चट्टे का घोष विक्रय / नीलाम द्वारा निर्वर्तन निम्नानुसार दर्शित तिथि एवं समय में किया जावेगा। इच्छुक क्रेता से अनुरोध है, कि वे घोष विक्रय / नीलाम में भाग लेवे। घोष विक्रय की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय-नीलाम समय पर वनमण्डल कार्यालय / विक्रय काठागार कोटा से प्राप्त की जा सकती है। कृपया बोली लगाने से पूर्व कर्तोपज स्थत निरीक्षण कर लेवे।

क्र.	प्रजाति	नया				पुराना			
		लट्टा घ.मी.	बल्ली/खुटा नग	जलाऊ चट्टा	लट्टा घ.मी.	बल्ली/खुटा नग	जलाऊ चट्टा	ख्यापारी / औ.बांस नो. टन	
1	सगौन	1.311	-	-	55.573	722	12	-	-
2	साल	-	-	-	36.043	110	-	-	-
3	बीजा, तिस्रा, शीशम	-	-	-	10.362	71	-	-	-
4	साज	-	-	-	43.841	171	-	-	-
5	हल्दू, मुठी, कम्ही, खम्हार	-	-	-	11.653	141	-	-	-
6	धावड़ा	-	-	-	9.351	50	-	-	-
7	सलई	-	-	-	3.437	-	-	-	-
8	अन्य	-	-	-	135.762	223	-	-	-
9	जलाऊ	-	-	-	-	-	528	-	-
10	निरस्त लॉट	-	-	-	2.611	469	-	-	-
11	ख्या. बास	-	-	-	-	-	-	476	1.100
12	औद्योगिक बास	-	-	-	-	-	-	540	1.100
13	अन्य कबाड़	1.311	-	-	308.633	1957	540	476	1.100

टोप- (अ) क्रेता को पैन नं. एवं रजिस्ट्रेशन वर्ष 2023 तथा जी.एस.टी. नं. को छात्रप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।  
वन मंडलधिकारी बिलासपुर वन मण्डल बिलासपुर (छ.ग.)  
जी- 06923/3



अनमोल दावा

जितने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं।

आजादी के बावजूद अधिकारियों की औपनिवेशिक मानसिकता बरकरार

प्रशासनिक अधिकारियों की आम लोगों से दूरी इसीलिए बढ़ती गई है कि वे अपने ओहदे के अहंकार से बाहर निकल ही नहीं पाते। अधिकारी प्रायः अपने आसपास आतंक का ऐसा घेरा बनाए रहते हैं कि लोग उन तक सामान्य तरीके से पहुंच ही नहीं पाते। अगर किन्हीं स्थितियों में वे आम लोगों के बीच घिर जाते हैं या मजबूरी में उन्हें उनके बीच जाना पड़ता है, तब भी उनकी कोशिश यही रहती है कि उनके रुतबे का दबदबा कायम रहे। दो दिन पहले टूक चालकों की हड़ताल के समय मध्यप्रदेश में शाजापुर के जिलाधिकारी ने भी इसी प्रवृत्ति के चलते अपनी हनक दिखाते हुए चालकों की चूओकातज पर सवाल खड़े कर दिए। इसे लेकर खासा बवाल हुआ। अच्छी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जिलाधिकारी को वहां से हटा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अधिकारियों से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं करती और न बर्दाश्त कर सकती है। न जाने दूसरे अधिकारियों ने इस प्रकरण से क्या सबक लिया है। मगर इससे एक बार फिर यह सवाल गाढ़ा हुआ है कि लोकसेवक आखिर कब लोक की सेवा का अपना कर्तव्य समझे और आम लोगों से तालमेल बिठा कर अपने सामाजिक कल्याण के दायित्व का निर्वाह सीखेंगे।

प्रशासनिक अधिकारी आमजन और सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी होते हैं, जो न सिर्फ सरकारी योजनाओं को सही और प्रभावी ढंग से लागू करते, बल्कि स्थानीय समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि लोगों के बीच रह कर उनकी समस्याओं को सुने-समझेंगे और उनके समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। मगर स्थिति यह है कि आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद जिलाधिकारियों की औपनिवेशिक मानसिकता बदल नहीं पाई है। वे जनता का सेवक बन कर काम करने के बजाय शासक बन कर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। स्थिति यह है कि अगर कोई उनके खिलाफ अंगुली उठा देता या उठाने का प्रयास करता है, तो वे उसके दमन पर उतर आते हैं। इस तरह भय का वातावरण बना कर मनमाने ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन से पारदर्शिता गायब है। यही वजह है कि शाजापुर के जिलाधिकारी ने टूक चालकों को भय दिखा कर आंदोलन से दूर हटाने का प्रयास किया। जबकि उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे आंदोलनकारियों की बात सुनें और उनकी मांगों पर समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाएं। मगर नौकरशाही में ऐसी सलाहियत शायद सिरे से गायब होती जा रही है। प्रशासनिक सुधार संबंधी अनेक सुझाव समय-समय पर सरकारों को सौंपे गए, मगर उन्हें अमली जामा पहनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। इसी का नतीजा है कि सत्तापक्ष अपनी मंशा के अनुरूप नौकरशाही का इस्तेमाल करता रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों में भी सत्ता से करीबी कायम कर लाभ की जगहों पर पहुंचने की होड़ देखी जाती है। मध्य प्रदेश के जिस जिलाधिकारी को अपदस्थ किया गया, वे भी इस मानसिकता से मुक्त नहीं माने जा सकते। उन्हें भरोसा रहा होगा कि टूक चालकों को अपनी धींस से काबू में कर लेंगे, तो सत्तापक्ष पर उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। सत्ता और प्रशासन के बीच इस गठजोड़ को लंबे समय से लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत माना जाता रहा है। मध्यप्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार ने एक जिलाधिकारी के प्रति कठोर कदम उठा कर नौकरशाही को अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने का संदेश तो दिया है, मगर देखना है, यह कितना टिकाऊ साबित होता है।

उठ रही है एक और आंधी जब निकल पड़ेगे गांधी

राहुल की दूसरी यात्रा होगी 'न्याय यात्रा' 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेगी

देश की अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनावों से पहले एक बार फिर चतुर्गनी सेनाएँ सजने लगी हैं। किसी के हाथ में धर्म-ध्वजा है तो किसी के हाथ में न्याय का शंख रण है। लेकिन भरियाँ नहीं बज रही। सब कुछ खामोशी के साथ हो रहा है। खामोशी के साथ अयोध्या में राममंदिर में समलला को प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण के लिए पीले चावल बाँटे जा रहे हैं। खामोशी के साथ ही कांग्रेस ने अपनी नई न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है। कहीं टूट-फूट है तो कहीं आंतरिक असमंजस। मिसाल के तौर पर राजस्थान को ही लीजिए, जहाँ 25 दिन बाद भी भाजपा भजन मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई। खैर। पाँच में से तीन राज्य विधानसभाओं में डेर हो चुकी कांग्रेस के नेता इस बार भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रहे। उनकी नई यात्रा का नाम 'न्याय यात्रा' है। कांग्रेस जनता के साथ केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा जनता और जन प्रतिनिधियों के साथ किए जा रहे कथित अन्याय के खिलाफ जन-जागरण के लिए यात्रा पर निकल रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी को यह यात्राओं का खासा अनुभव है। इस समय देश में किसी भी राजनीतिक दल के पास राहुल गांधी जैसा कामयाब यात्री नहीं है। सत्तारूढ़ दल अब यात्राएँ नहीं करता। सत्तारूढ़ दल अब रोड शो करता है। राजनीति में यात्राओं और रोड शो के जरिए जनता को आंदोलित किया जाता है। राहुल गांधी की यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और

गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। राहुल गांधी की पूर्व की भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले वे यात्रा बड़ी और कठिन भी है। पहली यात्रा के प्रतिपाद के रूप में कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में सत्तारूढ़ होने का मौका मिला। अब मौका लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को पदच्युत करने के साथ ही उसके 400 पार के लक्ष्य को ढेर करने का भी है। यात्राओं के जरिए जन-जागरण और सत्ता परिवर्तन असंभव नहीं है। देश को आजादी तक इसी तरह की यात्राओं के जरिए मिली है। कांग्रेस का देश की आजादी के 75 साल बाद भी गांधीवादी यात्राओं में यकीन है, ये रेखांकित करने वाली बात है। जिस तरह से आरएसएस, जनसंघ बाद में भाजपा ने धर्मध्वजाओं को नहीं छोड़ा उसी तरह कांग्रेस ने भी गांधीवाद और धर्म निरपेक्षता की मशाल जलाए रखी। भाजपा को अपने सिद्धांतों पर चलने का लाभ भी मिला और कांग्रेस को गांधी के रास्ते पर चलने का फायदा भी। सद्भाव और भेदभाव के बीच का सनान संघर्ष न अभी तक रुका है और न रुका है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसका रूप-रंग जरूर बदला हुआ नजर आएगा। आपको याद दिला होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पहले दक्षिण से उतर हुई थी लेकिन न्याय यात्रा यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी। वे यात्रा उस मणिपुर से शुरू होगी जिसकी बर्बादी के बावजूद प्रधानमंत्री न मणिपुर गए और न लंबे आरसे तक उन्होंने मणिपुर पर कोई ब्यान दिया था। शायद राहुल गांधी इसके जरिए मोदी सरकार के साथ उनके डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला कर सकें। कांग्रेस की ये न्याय यात्रा मकर संक्राति से शुरू हो रही है। संक्राति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। कांग्रेस भी राजनीति के सूर्य की चाल बदलने के लिए उतावली है लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए के बाद अब 'इंडिया' यानि आईएनडीआईए गठबंधन बना है। जिसमें ने 28 दल शामिल हैं और ये वे दल हैं जो भाजपा द्वारा सताए गए हैं। जो कभी कभी सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सताये गए हैं। भाजपा इंडिया गठबंधन के दलों के साथ कभी न कभी विश्वासघात किया है। कभी किसी दल के साथ मिलकर सरकार बनाई और बाद में तोड़ दी और यदि भाजपा को सरकार बनाने में कामयाबी नहीं मिली तो उसने उस दल को ही तोड़ दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी-और शिवसेना इसकी शिकार बन चुकी है। बिहार में तो ऐसा बार-बार हुआ है। बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा भी भाजपा के रडार पर हमेशा से रहे हैं। अब ये सब दल मिलकर भाजपा से बदला लेना चाहते हैं। गनीमत है कि इस यात्रा का नाम न्याय-यात्रा रखा गया है, बदला यात्रा नहीं। वैसे अतीत में सत्तारूढ़ भाजपा समेत तमाम दल न्याय यात्राएँ निकाल चुके हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में तो अन्याय की अति कर दी। संसद के दोनों सदनों से एक-दो नहीं बल्कि पूरे

150 सांसदों को निर्बलित कर दिया। संसद को बिना विपक्ष के चलाया, ध्वनिमत से विधेय पारित कराए और तो और राज्यसभा के सभापति को विपक्ष के खिलाफ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। देश कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो काम 'आपातकाल' लगाकर भी नहीं कर सकी थी वो मोदी सरकार ने बिना आपातकाल लगाए कर दिखाया लेकिन कांग्रेस और गैर भाजपाई दल अभी तक भाजपा को सत्तारूढ़ करने में कामयाब नहीं हो सके हैं लेकिन वे रुके भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस कि ये न्याय यात्रा एक नई पहल है। कांग्रेस कि न्याय यात्रा को देश का गैर भाजपा विपक्ष भी अंगीकार कर इसमें शामिल होगा या नहीं इसे लेकर अभी कहासा है। कांग्रेस कि इस न्याय यात्रा में यदि इंडिया गठबंधन के दल शामिल हो जाते हैं तो इसकी धार और तेज हो सकती है। इस यात्रा का लाभ समूचा विपक्ष को मिल सकता है, अन्याय कांग्रेस को तो कुछ न कुछ लाभ मिलना तय है। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन के नेता के चेहरे कि है। भाजपा इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमलावर रहने वाली है। राहुल की इस नई जोखिमपूर्ण यात्रा से भाजपा के सर पर चढ़ा राहुल गांधी का भूत और अधिक तांडव मचा सकता है। क्योंकि कोई माने या न माने लेकिन देश में राहुल गांधी ही विपक्ष का पर्याय है। राहुल की इस न्याय यात्रा को निर्णय होना चाहिए, अन्याय देश के हालात और गंभीर हो सकते हैं। इस तरह की यात्राओं का स्वागत किया जाना चाहिए, भले ही इन यात्राओं के निहितार्थ ठेट राजनीतिक ही क्यों न हों। -विदर्भ चंडिका से साभार

विचार सरिता

मन में बसे हैं राम 29: श्री राम के तेज व बल के आगे कोई माया नहीं ढहर सकती

डॉ. योगेंद्र कुमार पांडेय



विश्वामित्र जी द्वारा राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की बात पर राजा दशरथ चिंतित हो गए। अनेक विचार उनके मन में प्रश्न के रूप में उमड़ने-धुमड़ने लगे। उन्होंने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, "हे मुनिवर! राम और लक्ष्मण किशोरवय हैं। उन्होंने अस्त्र-शस्त्रों के संचालन की शिक्षा और प्रारंभिक प्रशिक्षण अत्यय प्राप्त किया है, लेकिन उन्हें व्यावहारिक युद्ध की कौशल अनुभव नहीं है। उनका प्रशिक्षण केवल अस्त्र शस्त्रों से अर्थात् होने और उनके प्रयोग की विधि जानने तक ही सीमित है।" महर्षि विश्वामित्र ने समझाया, "राजन्! आप राम और लक्ष्मण की शक्ति से अभी तक अपरिचित हैं। उनका जन्म इस धरती पर सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हुआ है। जहाँ तक मैं अपनी विद्या से देख पा रहा हूँ, राम का यश संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होगा। उनमें एक महान योद्धा और कुशल सेनापति बनने के सभी गुण हैं। वे अभी छोटें हैं तो क्या हुआ लेकिन यदि

समय है जब उन्हें अपनी धनुर्विद्या और अपने युद्ध कौशल के अनुप्रयोग का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है।" महाराज दशरथ असमंजस में पड़ गए। वे कुमरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। "अगर आप अनुमति दें तो मैं स्वयं राम और लक्ष्मण के बदले अपनी अश्रीणिणी सेना लेकर आपके साथ जाऊंगा और उन राक्षसों से युद्ध कराऊंगा। देव! रक्षा मायावी है। वे छल और कपट से युद्ध करते हैं।" राजा दशरथ ने तर्क दिया। विश्वामित्र जी ने पुनः समझाया, "राम की सरलता, राम के तेज, बल और राम की सत्यनिष्ठा के सामने किसी राक्षस की कोई माया नहीं ढहरेगी और कोई छल काम नहीं आएगा राजन्! आपके ज्येष्ठ पुत्र हर तरह के ध्रम और मायाजाल को तोड़ने में सक्षम हैं। आप संपूर्ण मानवता की रक्षा के आपके पुत्रों के भावी दायित्व में मोह का बंधन लगा रहे हैं।" "ऐसा नहीं है मुनिवर मैं स्वयं प्रजा की रक्षा के लिए दिन-रात चिंतित रहता हूँ और उम्र के इस पड़ाव पर भी सक्रिय रूप से एक राजा का दायित्व-निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे पुत्रों से लगाव तो है लेकिन मैं एक राजा के रूप में इस

राज्य के दो नागरिकों की राज्य से बाहर के युद्ध अभियान में संलग्न होने के लिए सहमत होने से पूर्व अच्छी तरह विचार विमर्श कर लेना चाहता हूँ। क्या मैं उन दोनों राक्षसों की पुष्टभूमि जान सकता हूँ देव?" राजा दशरथ ने पूछा। (भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा संस्कृत साहित्य में आदिकवि वाल्मीकि से लेकर वेदव्यास श्री कृष्ण द्रैपयान और हिंदी साहित्य में भक्ति काल के महाकवि तुलसीदास और उनके साथ-साथ अनेक कवियों तथा साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत की गई है। श्री राम कथा हजारों वर्ष पहले की है, लेकिन यह चरित्र प्रसंगिक है। युगो-युगों तक इसकी उपयोगिता है। श्री राम और रामायण के अन्य प्रेरक चरित्रों से हमें आधुनिक जीवन के लिए उपयोगी अनेक जीवन सूत्र प्राप्त होते हैं। इस लेखक द्वारा प्रस्तुत मौलिक अलेखों और प्रसंगव्य कथाओं में भगवान श्री राम की दिव्य कथा का एक अत्यंत साधारण भक्त की कल्पनादृष्टि से, मूल कथा सूत्रों के रचनाकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए साहित्यिक प्रस्तुति का एक अनगढ़ प्रयत्नमात्र है।)



सामयिक चर्चा

बाते दो खेलों की

खबर पढ़कर बानी बोले- "गजाधर! सडसठवीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता 2023-24 को हमारे विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का मिला साथ। उन्होंने कहा- खेल में जीत और हार का महत्व नहीं बल्कि प्रतियोगिता में भाग लेना ही है बड़ी बात।" गजाधर मुस्कराए, बोले- "और बानी! राजनीति के खेल में जीत और हार का महत्व नहीं बल्कि चुनावी प्रतियोगिता में टिकट प्राप्त कर लेना ही है बड़ी बात।" गिरीश बख्शी

लघुकथा

इंसान को इंसान ही रहने दो...

पेज 4 लेख-विलास (01 जनवरी 2024- फोटो-ऋतुराज साहू) इंसान हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहता है, चाहे वे दूसरों की मेहनत और सफलता पर लाख उंगली उठाए पर अपनी सफलता के एक अवसर नहीं छोड़ता, चाहे वे अपनी निजी स्वार्थ के कारण समाज का या जनसमुदाय का लाख बुरा किया हो, किसी व्यक्ति के प्रयास को विफल करने का पुरजोर कोशिश किया हो, अपनी कृति मानसिकता को अमलीजामा पहनाने का अथक प्रयास किया हो परंतु अपनी गलती की स्वीकारोक्ति से कौसी दूर अस्वेधानिक रूप से प्राप्त सफलता के लिए अपना पीठ थपथपाना नहीं छोड़ता। दूसरों के लिए उनके द्वारा किया गया व्यवहार को भी अपने लिए बर्दास्त नहीं कर सकता, अपने अहम के वशीभूत जिस व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए लाखों रूपए समाज या जनसमुदाय का नुकसान करता या करवाता है, वहीं अपने निजी स्वार्थ को पुख्ता करने के लिए उसी आदमी को गले लगाता है। अपनी लाखों मूर्खता और स्वार्थ की पराकाष्ठा को नजर अंदाज कर जिंदगी के प्रत्येक पन्ने पर अपनी सफलता का इतिहास लिखना चाहता है। पर अफसोस की दुनिया की इस भौड़ में हम अकेले बुद्धिमान नहीं होते और फिर हमारा कृत्य या कर्तव्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हम अपनी सफलता पर अपनी पीठ थपथपा कर निसंदेह खुश होते हैं लेकिन ये हमारा धर्म मात्र है। वास्तव में अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता और जब तक अत्याम हमारी सफलता पर प्रसन्नता जाहिर नहीं करता तब तक बड़ी से बड़ी सफलता भी हमें हमारी नाकामी का एहसास कराता है। जो गढ़े हमने अतीत में औरों के लिए खोदे थे वहीं गढ़ा आज तक हमारा इंतजार कर रहा होता है। इंसान सफल हो या न हो पर इंसान को इंसान बने रहना चाहिए निजी स्वार्थ या वर्चस्व के लिए दुश्मन या दोस्त बनाकर अपनी क्षिणक सुख का परित्याग जब तक हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। तब तक हम सारे सफलता को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सकते। (ऋतुराज साहू) आतारगांव, जोगरागांव मोबा.-9589353164

शब्द सामर्थ्य -295 (भावावन माह)

Word puzzle section with clues and a crossword grid. Clues include: 1. युवाव-पितृव्य वाला, आजा-मायावा 18. प्रमाण-पत्र, प्रमाणिक कथन या बात 19. पड़खाना का स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, 7. सीता, जनकमन्दिर 9. लुंटा, 10. क्रीडा-कला 11. सत्तारूढ़, अल्पकालिक शासन, 20. सहायक, 21. पशुधर्म को दिखाने अर्थात्, मातहत, बरा 14. पुत्र, मेघ 8. मूल्य, धाम 9. कपड़े का मोटा धागा 11. संदेश भेजना, उत्तराकर कराना, कजरलबाणा 12. मुकुटों की जीवाँ और रोमियों का स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, प्रियायत्र की रंगा 14. देने की क्रिया, खरत 5. कुमारी, दृष्टावरी 17. भरतक, भाषा, ललाट 18. गीता में आग, क्रोधासक्ति में 1. सत्तारूढ़, अल्पकालिक शासन, 20. सहायक, 21. पशुधर्म को दिखाने अर्थात्, मातहत, बरा 14. पुत्र, मेघ 8. मूल्य, धाम 9. कपड़े वाली इरी पहिचान, तुण, तिनबना।

सू-दोक क्र.295

Sudoku puzzle grid with numbers and empty cells for solving.

राशिफल

Horoscope section for signs: मेष (Aries), कर्क (Cancer), तुला (Libra), मकर (Capricorn). Each sign includes a description of their characteristics and advice.

Horoscope section for signs: वृषभ (Taurus), सिंह (Leo), वृश्चिक (Scorpio), कुंभ (Aquarius). Each sign includes a description of their characteristics and advice.

Horoscope section for signs: मिथुन (Gemini), कन्या (Virgo), धनु (Sagittarius), मीन (Pisces). Each sign includes a description of their characteristics and advice.

### पहला कॉलम...

#### विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन ग्राम कन्हारगांव में संपन्न



डोंगरगाड़ (दावा)। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के तहत ग्राम कन्हारगांव में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रवि अग्रवाल जनपद सदस्य, उपकार साहू पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, सरपंच सरला गंगाधर साहू, उपसरपंच जैन मेश्राम, सरपंच प्रतिनिधि गंगाधर साहू, उपस्थित थे। शिविर में सभी विभाग के कर्मचारी ने सरकार सरकार की योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी। शिविर में उज्ज्वला गैस हितग्राही का केवाईसी किया गया। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाया गया, कृषि विभाग द्वारा योजनाओं की जानकारी साझा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अन्नप्रदान और गोदभरई का कार्यक्रम किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि रवि अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के साठे नौ साल की योजना और नये योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को योजना का लाभ लेने का आह्वान किया गया और सभी को 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने वाले कार्यक्रम को दिवाली की तरह मनाने का आह्वान किया। सरपंच सरला गंगाधर ने बताया की प्रधानमंत्री द्वारा कई प्रकार की योजनाएं लागू की हैं। जैसे की पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलना, शौचालय योजना आदि योजनाओं की भी जानकारी एवं किये गए कार्यों एवं प्रदत्त निरंतर सहयोग के लिए सभी जनों का सरपंच के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा की केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी।

पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष उपकार साहू ने कहा कि धरतल की सच्चाई से अवगत कराया जाए तथा विकास कार्यों को गति प्रदान कर ग्रामीणों को योजना से जोड़ा जाए। कार्यक्रम में सरपंच सरला गंगाधर साहू, साधु सिंह, प्यारलाल नेताम, बहलु साहू, पूर्णिमा साहू, रामहिन कंवर, रेवती बाई, खेमिन पटेल, कला बाई, कुंभकरन गोड, नामदेव साहू, दाहू पटेल, महेंद्र साहू आदि लोग मौजूद रहे।

#### प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाए जौहर




टेल्काडीह (दावा)। संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हरदुवा संकुल के ग्राम देवादा में किया गया। आपको बता दें कि संकुल के अंतर्गत 4 जनवरी एवं 5 जनवरी को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता आलोक सोनी, सरपंच गेंदुराम पटेल, शाला प्रबंधन समिति शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं शासकीय प्राथमिक शाला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वर्मा, अनीता सोनवानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में पांच स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें हरदुवा, देवादा, मिथवा, भरखावुर्द, महकूम खुर्द के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में ग्राम के महिला समूह एवं ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। स्कूली बच्चों ने खेल को खेल की भावना से खेलते हुए अपना जौहर दिखाए।

#### राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण पत्र का वितरण



डोंगरगाड़ (दावा)। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण पत्र को भाजपा कार्यकर्ता द्वारा राम भक्त परिवर्तनों को वितरण किया जा रहा है। 22 जनवरी को घर में रंगोली व दीपक जलाकर जैसे दीपावली में हजोखस के साथ मनाया जाता है, वैसे ही अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण को प्राण प्रतिष्ठा को दीपावली की तरह मनाने की अपील की जा रही है। जिसे लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है शहर में भिन्न-भिन्न समूह बनाकर ग्रामीण तथा शहरों में अक्षत निमंत्रण पत्र को पूजा की थाल व दीपक के साथ स्वागत कर रहे हैं। निमंत्रण पत्रों को अक्षत व निमंत्रण पत्र मिल रहा है वह बहुत उत्साहित हैं। वार्ड क्रमांक 6 राधिका नगर में भी निमंत्रण पत्र वितरण में दीपेन्द्र गोमास्ता, अमिता गोमास्ता, वैशाली देशकर, बबीता साहू, आंचल मिश्रा, प्रतिभा वाजपेई, डोमन साहू, लवकुशा साहू सविता वैष्णव, ललित निषाद सम्मिलित हैं।

#### लाल बहादुर नगर में दो दिवसीय रामायण सम्मेलन का 40 वां वर्ष



डोंगरगाड़ (दावा)। क्षेत्र के सबसे बड़े गांव लाल बहादुर नगर में लगातार 40 वर्षों से दो दिवसीय रामायण सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से रामायण मंडली को बुलाया जा रहा है, यह सम्मेलन 06 एवं 07 जनवरी को लाल बहादुर नगर के बाजार चौक के पास आयोजित होगा। श्रीराम युवा मंच एवं समस्त ग्रामवासी के तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा जिसमें 05 जनवरी शाम को कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो पूरे गांव में भ्रमण करेगी। उसके बाद शनिवार रविवार 06,07 जनवरी को रामायण सम्मेलन होगा। 08 जनवरी सोमवार को भंडारा प्रसादी किया जाएगा। जिसमें गांव के साथ साथ क्षेत्रवासी भी शामिल होंगे। भाजपा नेता हेमलाल वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के अध्यक्ष खेदुराम साहू, पवित्र साहू, लोकेश साहू, राज साहू एवं समस्त ग्रामवासियों ने धर्मप्रमोदों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने निवेदन किया है।

## 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा

छुरिया (दावा)। भारत सरकार की योजनाओं की आउटरीच गतिविधियों के माध्यम योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाना तथा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज 05 जनवरी को पहला वैन ग्राम पंचायत जैतगुड़ा एवं पंडरापानी दूसरा वैन ग्राम पंचायत परेवाडीह एवं चिखलाकसा में पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन आगमन के पश्चात स्वागत समिति द्वारा वैन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री का संदेश एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य की जानकारी वैन के माध्यम से चलचित्र प्रसारण कर दिया गया।



विकासखण्ड छुरिया अंतर्गत 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' कार्यक्रम आयोजित

विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम ग्राम पंचायत जैतगुड़ा में मुख्य अतिथि एम.डी. ठाकुर (प्रदेश उपाध्यक्ष अ.ज.जा.) कार्यक्रम की अध्यक्षता मयाराम साहू (उपाध्यक्ष भाजपा मंडल छुरिया) ग्राम पंचायत पंडरापानी में मुख्य अतिथि विक्रान्त श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष झुग्गी झोपडी प्रकोष्ठ) अध्यक्षता मयाराम साहू (उपाध्यक्ष भाजपा मंडल छुरिया), ग्राम पंचायत परेवाडीह में मुख्य अतिथि कैलाश शर्मा (सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा) अध्यक्षता भूपेंद्र नायक (जनपद सदस्य छुरिया) एवं ग्राम पंचायत चिखलाकसा में मुख्य अतिथि श्रीमती हरिला बाई चन्द्रवंशी (जनपद सदस्य छुरिया), ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पटेल, पंचायत

पदाधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में विकसित भारत के लिए मुख्य अतिथि द्वारा शपथ दिलाया गया।

इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण व जैविक खेती को बढ़ावा देने पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति 'धरती कहे पुकार के' की प्रस्तुति स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा की गई। केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा 'मेरी कहानी मेरी जुबानी' अंतर्गत अपना अनुभव साझा किया गया तथा हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कृषि विभाग द्वारा ड्रोन प्रदर्शन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेमोस्ट्रेशन एवं प्रगतिशील किसानों के साथ जैविक कृषि पर बातचीत कर जैविक कृषि को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। वैन के माध्यम से आन-सपोर्ट क्रिज प्रतियोगिता में स्कूली छात्र-

छात्राओं, ग्रामीण एवं उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्रिज प्रतियोगिता में भाग लिया गया। क्रिज प्रतियोगिता में विजेताओं को टी-शर्ट व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को मुख्य अतिथियों द्वारा सामग्री वितरण एवं अभिनन्दन पत्र से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना अंतर्गत डोमन लाल, कीर्तन लाल को प्रधानमंत्री आवास पूर्णता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीमती गीताजली ठाकुर एवं डेकेरा कुमार को आयुष्मान कार्ड, कृषि विभाग द्वारा सोनसाय एवं चेतन साहू को नैनो यूरिया, परिवहन विभाग द्वारा शिविर में लॉनिंग लाइसेंस बनाया गया तथा लाइसेंस वितरण भी किया गया। महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल में सुपोषण

के सम्बन्ध में जानकारी दी गई एवं अन्नप्रदान व गोदभरई कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती माताओं को सुपोषण कीट प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को गैस-चूल्हा का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि जैसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और लाभान्वित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेने की बात कही। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को उपस्थित होकर अपने विभागीय योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराने तथा लिखित पात्र हितग्राहियों को समयवध्व तरीके से लाभान्वित कराने के लिए निर्देशित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल आयोजन के लिए जनपद पंचायत छुरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एस.के. ओझा, जी.पी. लरिया एसडीओ/आरएएस, श्रीमती कलमावती मरकाम परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती एस. बी.वरिष्ठ कृषि अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी मोहित पड़ोती एवं सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

## अयोध्या से गंडई पहुंचा पूजित अक्षत कलश, प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरु हुआ निमंत्रण देने का दौर

### श्रीराम मंदिर पंडरिया से मेन चौक गंडई तक कलश यात्रा निकाली

गंडई पंडरिया (दावा)। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्रीराम के दर्शन हर समाज की वर्षों पुरानी यह अभिलाषा 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है जिसको लेकर गंडई में भी तैयारी तेज कर दी गई है। स्वयंसेवक व नगरवासी प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को जन-जन तक पहुंचाने की न सिर्फ पूरी कार्ययोजना बना चुके हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रण देना शुरू हो गया है। जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इस अविस्मरणीय पल का साक्षी बनने को उत्सुक दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में, मां गंडई की नगरी के स्वयंसेवक एवं नगरवासी हनुमान जी की तरह आराध्य के प्रति सेवाभाव के साथ इस उत्सव में सक्रिय योगदान देने को तत्पर नजर आ रहे हैं। वह भी सीता की खोज में निकले हनुमान जी की तरह ही पूर्ण निष्ठा से राम काजू खोदें बिना मोहि कहां बिश्राम, की सोच के साथ अयोध्या से पूजित अक्षत कलश आने के बाद से वह सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। श्री अयोध्या धाम में रामलला के चरणों में समर्पित पूजित पवित्र अक्षत के वितरण हेतु अक्षत कलश यात्रा शुरुकार को गंडई पहुंचा चुके हैं।



नगर भ्रमण करते गंडई मंदिर पहुंची तथा हर-हर अक्षत और निमंत्रण पत्र वितरण के साथ संपन्न हुई। यात्रा लगभग 1 बजे श्रीराम मंदिर से निकली और 4 बजे मां गंडई मंदिर पहुंची और गांव-गांव में आमंत्रण के लिए भेजा गया। इस यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फलेश्वर साहू, कोमल जंघेल, खम्मन ताप्रकार, ज्योति जंघेल, रवि भवनानी, राकेश जायसवाल, राकेश ताप्रकार, टुमन साहू, उमामा चौबे, बबलु सोनी, पप्पू देवांगन, दिनेश टंडन, टेकन निषाद सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक सहित नगर एवं आरूपास के ग्रामवासी उपस्थित रहे।

#### निमंत्रण पत्र को जन-जन तक पहुंचा रहे

स्वयंसेवक व नगरवासी प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को जन-जन तक पहुंचाने की न सिर्फ पूरी कार्ययोजना बना चुके हैं, बल्कि गांव-गांव में कलश लेकर आमंत्रण देना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए गांव की महिलाओं में भी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व पूजित अक्षत वितरण अभियान की ओर से बांटे जा रहे हैं।

#### बनाया गया संरक्षक मंडल

नगर में इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों ने बताया कि घर-घर तक निमंत्रण पत्र पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गंडई में समिति का गठन किया गया है। इसमें जिनके निर्देशन में पूरे शहर में निमंत्रण पत्र बांटने का कार्यक्रम किया जाएगा। समितियों ने बताया कि सभी गलियों में घर-घर जाकर लोगों को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण देते, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सबकी है।

#### 22 जनवरी को मनाएंगे दीपावली

प्रभु श्रीराम के 14 वर्ष का वनवास पूरा कर जब अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या के नगरवासियों ने दीपावली मनाकर उनकी वापसी पर खुशी दिखाई थी। वैसे ही 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा को खुशी में शहर में हम दीपावली मनाएंगे। संपर्क अभियान में लोगों से अपील करेंगे कि 22 जनवरी की शाम वह घरों के बाहर दिए जलाकर दिवाली मनाएं।

## नशा मुक्त समाज के लिए युवा शिविर का आयोजन



अंबागाड़ चौकी (दावा)। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्व. लाल श्याम शाह शासकीय महाविद्यालय मोहला द्वारा सात दिवसीय नशा मुक्त समाज के लिए युवा शिविर का आयोजन ग्राम मारी विकासखण्ड मोहला में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बौद्धिक चर्चा की भी आयोजन किया गया, छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पी.एल.साहू प्रधान पाठक बालक पूर्व माध्यमिक शाला कौड़ीकसा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र विकास के साथ युवा विकास पर अधिक बल देते रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहला से पधारें योंगेंद सिंगने ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना ग्रामीण विकास का श्रेष्ठ माध्यम है। आधार व्यक्त अधिकारी जी.पी.चंद्रवंशी, पुनम खरे सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय मोहला ने प्रगत किया। कार्यक्रम की सफलता में नागेश मंडवी सहायक प्राध्यापक प्राचार्य एस.एस. मंडलोई मारी, सोहन मंडवी प्रधान पाठक के. के. वर्मा व शिक्षकों, स्वयंसेवकों बबली, करुणा, यशोमती, गौरव, गंगा, रोषानी, रिया, यामिनी, पल्लवी, हेमा, राकेश, पंकज, सूरज, दीपक, खेमन, अरविन्द का सराहनीय सहयोग रहा।

## खामतराई में तीन दिवसीय कबीर सत्संग 15 से

हरदी (दावा)। ग्राम खामतराई में 15 जनवरी से तीन दिवसीय कबीर सत्संग का आयोजन रखा गया है। प्रबचनकर्ता धर्माधिकारी सुधाकर साहेब लहर तारा खरसिया गद्दी आसीन होंगे, साथ में भजन मंडली के अलावा कार्यक्रम में अनुपम साहेब, तुकेश साहेब, महंत परस साहेब, रामचंद्र दास, दिनेश साहेब अपने-अपने प्रबचन देंगे। उक्त कार्यक्रम नाथिया बाई कबीर आश्रम के महंत अचित दास साहेब एवं समस्त ग्रामवासी के तत्वाधान में आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर समस्त सत्संगी को अधिक से अधिक संख्या में श्रवण लाभ लेने हेतु आए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष दैलत राम साहू, उपाध्यक्ष कोमन साहू, सचिव गंगादास साहू, सह सचिव हेमंत सरवा, कोषाध्यक्ष सुरीत राम साहू, चेतन राम साहू, संचालक भोज राम कर्सेल चुने गए हैं। उक्त जानकारी भोजमण करसेल व कृष्णकांत साहू ने दी।

## केंद्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक - कैलाश शर्मा



खुज्जी (दावा)। विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत यात्रा हर ग्राम पंचायत पहुंच रही है, भाजपा नेता कैलाश शर्मा विभिन्न ग्राम पंचायतों में इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक एवं शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन छुरिया वि.खं.के ग्राम परेवाडीही पहुंचने के ग्राम परेवाडीही पहुंचने पर ग्रामवासी उत्साह के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि भाजपा नेता कैलाश शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी गांव गरीब किसान तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की जनहितैषी सोच के कारण ही आज हम इस

योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं, आवास योजना का लाभ हर वंचित लाभार्थियों को मिलेगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को शपथ दिलाई। मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश का वाचन किया गया। चलचित्र के माध्यम से विकसित भारत के उद्देश्य की जानकारी दी। संकल्प यात्रा में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया, कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिनमें गांव के लोगों ने प्रमुखता से सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में भाजपा जनपद सदस्य भूपेंद्र नायक, सरपंच शैल बाई, भूआर्य भोला निषाद, सरपंच प्रतिनिधि शत्रुघ्न कुमार तुलाराम, सुरालाल, अमर राम, पुनाराम, तिजन बाई, दशरीबाई, प्रमिला बाई, ज्ञान बाई, खन्हन लाल सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

## ज्योति कलश का सदुपयोग, मटका टपक विधि से पेड़ पौधे को पानी देने का बनाया जुगाड़

डोंगरगांव(दावा)। नवरात्रि के समय उपयोग में लाए जाने वाले ज्योत ज्वारा व कलश का सदुपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में पदस्थ रेडियोग्राफर भोज साहू पर्यावरण प्रेमी किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे पेड़ पौधे को पानी सिंचाई करने मटके की चंडी मंदिर में रखे अनुपयोगी छोटे मटके को मंदिर के पुजारी दिलीप भगत से पर्यावरण संरक्षण में उपयोग के लिए लिया। अस्पताल परिसर में करीब 30 मतजे से सिंचाई हो रहा है।



## सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो रहा है काराकण

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के काराकण के जिम्मेदारी सभी कर्मचारी मिलकर साफ सफाई रंगरोजन कर रहे हैं। जिससे अस्पताल परिसर में पहुंचते ही देखने को मिल जायेगा। सभी अपने जिम्मेदारीपूर्वक अस्पताल के काराकण में सहयोग कर रहे हैं। जिसमें बी. देवांगन नर्सिंग सिस्टर, रोमन सिन्हा, शुभम गुप्ते, विशाल खत्री, जितेन्द्र साहू, बसंत मालेकर, विनोद बारले, दकालदास मार्कण्डेय, नीमोता, पुष्पा लाउरे सहित अस्पताल के कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

## ग्राम बंशीबंजारी में सामुदायिक भवन छत्र जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति

राजनांदगांव (दावा)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार ने जिला पंचायत विकास निधि योजना अंतर्गत छुरिया विकासखंड के ग्राम बंशीबंजारी में सामुदायिक भवन छत्र जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कार्य एजेंसी को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

## समाजसेवी छविबाई साहू ने किया भोलाराम साहू का आत्मीय स्वागत सम्मान किया



राजनांदगांव (दावा)। बिते दिनों खुज्जी विधानसभा विधायक भोलाराम साहू के नवनिर्वाचन विधायक बनने पर व नया साल 2024 का समाजसेवी छविबाई साहू ने उनके निवास स्थान पहुंचकर मुलाकत कर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उन्हें आत्मीय स्वागत किया व बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया। जहां पर विभिन्न विषय में चर्चा किये। इस अवसर पर ग्राम मुनागांव से लक्ष्मी बाई गंधर्व, मिस्त्रा बाई उपस्थित थे।

## पहला कॉलम...

### बासुदी सुरंग में ब्लास्ट से बच्चों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। ताजा मामला बासुदी सुरंग में विस्फोट का है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बासुदी सुरंग विस्फोट में तीन बच्चों की मौत की खबर है।

मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बासुदी सुरंग विस्फोट की चर्चा में आने से कम से कम तीन बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे बकरियां चरा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने शुरुआत को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान की सीमा से सटे उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के मीर अली तहसील में बुधवार को यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक खजोरी इलाके में ये तीनों चरवाहे बच्चे मैदान में बकरियां चरा रहे थे, उसी दौरान एक बच्चा बासुदी सुरंग पर चला गया। ये बच्चे अक्सर अपने परिवार की बकरियों को चराने के लिए इस मैदान में लाया करते थे। वे पांच से 15 साल तक के थे। उसने बताया कि उनके शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में ले जाये गये। उसके मुताबिक किसी भी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है।

### टीवी अंपायर स्टंपिंग की अपील पर नहीं करेगे कॉट बिहाइंड का रीव्यू

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है जिसके तहत अब टीवी अंपायर, स्टंपिंग की अपील पर कॉट बिहाइंड का रीव्यू नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 12 दिसंबर से प्रभावी हुये नियमों के तहत अब विकेटकीपर के बेल्स गिरने के बाद अगर टीम कॉट बिहाइंड के लिए रीव्यू लेना चाहती है तब उसे अलग से अनैपारस की अपील करनी होगी। वर्ष 2023 की शुरुआत में भारत के खिलाफ श्रीलंका में कई बार ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स केरी स्टंप की अपील करते और टीवी अंपायर कॉट बिहाइंड को भी रीव्यू करते थे। इसके कारण गेंदबाजी कर रही टीम को रीव्यू लेने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी और अंपायर यह भी चेक करते थे कि गेंद बल्ले से लगकर गई है या नहीं। हालांकि अब स्टंप की अपील पर टीवी अंपायर केवल साइड ऑन कैमरा का उपयोग करते हुए यह जांचेंगे कि बल्लेबाज स्टंप आउट है या नहीं।

### सोने 70,000 रुपये की नई ऊंचाई की ओर बढ़ने के आसार

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतें 70,000 रुपये की नई ऊंचाई की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि बढ़ती औद्योगिक मांग के बीच चांदी की कीमतें 85,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं। कमजोर डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण सोने की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। डॉलर और पैदावार में इस उम्मीद से गिरावट आई है कि यूएस फेड मार्च 2024 तक दरों में कटौती शुरू कर देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर चिंता और मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव के रूप में सोने को मूल्यवान बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भंडार में विविधता लाते हुए खरीदारी का सिलसिला जारी रखने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर मांग के कारण कच्चे तेल को 90 डॉलर के करीब बाधा का सामना करना पड़ेगा।

### नोटों की गड्ढी को खाना समझकर खा गया कुत्ता, हुआ लाखों का नुकसान

नई दिल्ली। अफ्रीका के पेंसिल्वेनिया में एक हेरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कुत्ते ने मालिक को एक झटके में लाखों का नुकसान पहुंचाया है। दरअसल, पालतू कुत्ते ने नोटों की गड्ढी को खाना समझकर खा लिया है। जिससे कुत्ते के मालिक को लाखों का नुकसान हो गया। गाजियन की रिपोर्ट के अनुसार, पेंसिल्वेनिया की रहने वाली 33 वर्षीय कैरी लॉ और उनके पार्टनर क्लेन्टन ने सेंटिल नाम का सात साल का कुत्ता पाल रखा है। ये कुत्ता अपने कुत्ते का बंधु खाल रखता है। लेकिन पिछले महीने इस कुत्ते के साथ जो घटना हुई उससे ये दोनों सदमे में हैं। दरअसल, सेंटिल ने पिछले महीने किसी काम के लिए अलग रूखे गए पैसों के लिफाफे को खाना समझ खा लिया, जिससे कैरी लॉ को 4,000 डॉलर (3.32 लाख रुपये) का नुकसान एक झटके में हो गया। गाजियन से बात करते हुए कैरी ने कहा कि रुपये घर के किचन में बने काउंटर पर रखे हुए थे। हमने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है।

### पेज 1 का शेष...

अगवा मालवाहक पोत एनडी लीला नॉर्फोक को समुद्री लुटेरों से कराया रिहा.....

बृहस्पतिवार को सूचना मिली थी कि पोत पर पांच-छह लुटेरों सवार हो गए हैं और उसे सोमालिया की तरफ से ले जा रहे हैं। मालवाहक पोत बाजील के पोर्ट डू एको से बहरनी के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। लेकिन करीब दस दिन पहले ही लुटेरों ने अदन की खाड़ी में एमवी एनए का अपहरण कर लिया था।

**समुद्री लुटेरों की फिर बढ़ी सक्रियता**  
गुरुवार को लाल सागर में हूती विद्रोहियों को मालवाहक जहाजों हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की थी। समुद्री लुटेरों का फिर से सक्रिय होना पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। गौरतलब है कि 2017 में अंतराष्ट्रीय साझेदारी में कई देशों की नौसेना के विशेष अभियान ने इन लुटेरों का लगभग सफाया कर दिया था।

**समुद्री लुटेरों की अब खैर नहीं- नौसेना अधिकारी**  
भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अरब सागर में भारतीय युद्धपोतों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के चार युद्धपोत तैनात किए गए हैं। नौसेना अधिकारी ने बताया कि भारतीय नौसेना मुख्यालय समुद्र में अपने अभियानों पर कड़ी नजर रख रहा है।

महादेव सट्टेबाजी एप केस में नया मोड़ : .....

गया था और बाद में उसे एहसास हुआ कि घोटाला में फंसाया जा रहा है।

इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए ईडी को दुरुपयोग करने में लगी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान महादेव एप मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए थे।

**कांग्रेस ने आम चुनाव के लिए बनाई क्लस्टर स्तर की छानबीन समितियां**  
इसका सदस्य बनाया है। बिहार, पश्चिम बंगाल झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तथा सिक्किम क्लस्टर का अध्यक्ष राणा कपी सिंह को और सदस्य जयवर्धन सिंह तथा इवान डिसूजा को बनाया गया है।

**राजिम में कुंभ मेले का होगा भव्य आयोजन,.....**  
की सरकार बनी है, तब राज्य के पारंपरिक आयोजनों का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। वर्ष-2006 में भाजपा की सरकार ने राजिम त्रिवेणी संगम में 100 वर्ष से अधिक समय से रहे रहे पुत्री माघी मेला का नाम बदल कर गलत किया था। जिसे कांग्रेस सरकार ने सुधारा था। कांग्रेस की सरकार ने बीते पांच वर्षों में राज्य की संस्कृति, परंपरा, तीज-त्योहार, खानपान, बोली-भाषा को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। राज्य सरकार राजिम में परंपरा के अनुसार माघी पुत्री मेला का आयोजन कर प्रदेश की भावनाओं का सम्मान करे।

## आईसीसी रैंकिंग में भारत दूसरा पर, आस्ट्रेलिया नंबर वन पर

नई दिल्ली। भारतीय टीम ने कपेटाउन में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया पहली बार कपेटाउन में टेस्ट मैच जीती थी। लेकिन इस शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद भी टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन पर बरकरार नहीं रह सकी। नंबर वन का ताज ऑस्ट्रेलिया के सिर पर सज गया, जिन्होंने पाकिस्तान को लगातार



दो टेस्ट मैचों में शिकस्त दी। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला गंवाने और दूसरे में जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में 117 और 3746 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 118 रेटिंग और 3534 के साथ अबल्ल नंबर पर मौजूद है। रैंकिंग में आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर

है, जिनके पास 115 की रेटिंग और 4941 प्वाइंट्स मौजूद हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम रैंकिंग में नंबर चार पर नजर आती है, जिसके पास 106 की रेटिंग और 2536 प्वाइंट्स मौजूद हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड 95 रेटिंग और 2471 के प्वाइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर है। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की हालत काफी खराब है। पाक टीम 92 रेटिंग और 2304 प्वाइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान मौजूदा वकूत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूद है, जहां वो शुरुआती दो टेस्ट गंवा चुकी है। लगातार दो टेस्ट गंवा देने के चलते पाकिस्तान को रैंकिंग में काफी नुकसान हुआ है।

### सीनियर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स नेशनल : दीपा कर्माकर चमकीं, रेलवे ने महिला टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता

भुवनेश्वर। ओलंपियन दीपा कर्माकर ने सीनियर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2024 के दूसरे दिन ऑलराउंड प्रदर्शन में कुल 49.55 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला टीम वर्ग में रेलवे 182.60 अंकों के साथ चैंपियन बनी। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम स्थित जिमनास्टिक सेंटर में दूसरे दिन महिला वर्ग में महाराष्ट्र 169.95 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पश्चिम बंगाल 166.80 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान ओडिशा 164.65 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। पदक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधीर मितल मौजूद थे। त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही दीपा ने कुल 49.55 अंक हासिल किए। उन्होंने वॉल्ट पर 13.40, अनडवन

बास पर 10.65, बैलेंस बीम पर 13.10 और फ्लोर एक्सरसाइज पर 12.40 रिकॉर्ड किया। ऑल-अराउंड श्रेणी में शीर्ष पर रहने पर खुशी जताते हुए दीपा ने कहा, मैं आठ साल बाद सीनियर नेशनल में प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आज के प्रदर्शन से वास्तव में खुश हूँ। मैं कल अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा, यहां जिमनास्टिक सेंटर देखा वाकई स्थान पर रहा है और मुझे यकीन है कि यह बहुत सारे ओलंपिक और एशियाई खेलों के जिमनास्ट तैयार करेगा। मैं इस केंद्र के निर्माण और एथलीटों के लिए खेल संस्कृति बनाने के लिए ओडिशा सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। रेलवे की प्रगति दास (47.00) और स्वस्तिका गांगुली (45.30) ऑल-अराउंड में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही।

### भारत, नेपाल को 1000 करोड़ नेपाली रुपये की आर्थिक मदद देगा

नई दिल्ली। भूकंप से निपटने के लिए भारत सरकार नेपाल को 1000 करोड़ नेपाली रुपये की आर्थिक मदद देगी। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की है। जयशंकर दो दिनों के नेपाल दौरे पर हैं। पिछले साल नवंबर में आए भूकंप की वजह से करीब 128 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 141 लोग घायल हो गए थे। विदेश मंत्री ने शुक्रवार को नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने कल नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को भूकंप से प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ नेपाली रुपये के वित्तीय

पैकेज देने की बात कही। हाल के सालों में हमने भारत-नेपाल संबंधों के वास्तविक बदलाव को देखा है। दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। दोनों देशों की साझेदारी में कई गुणा विकास हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं हमने भीतिक, डिजिटल और ऊर्जा के क्षेत्रों में भी काफी विकास किया है। - उन्होंने आगे कहा, -इस बार नेपाल दौरे के बीच हमने ऊर्जा सेक्टर समेत कई समझौते किए हैं। समाचार एजेंसी एनएनआई के मुताबिक, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद ने मुलाकात की।

### 2024 में भी सबसे तेज गति से विकास करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2024 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2024 में भारत का विकास दर 6.2 फीसदी रहने का अनुमान है। जोरदार धरोतू डिमांड के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में शानदार ग्रोथ विकास दर के इस अनुमान को हासिल करने में मदद करेगी। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिच्यूरेशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट गुरुवार को जारी किया गया जिसके मुताबिक भारत में तेज विकास के चलते दक्षिण एशिया का सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी 2024 में 5.2 फीसदी के दर से ग्रोथ दिखाएगा। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत का जीडीपी 6.2 फीसदी रहने का अनुमान है जो कि 2023 के अनुमान के मुकाबले थोड़ा कम है। यूएन ने 2023 में 6.3 फीसदी जीडीपी रहने का अनुमान बताया था। पर रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 6.6 फीसदी जीडीपी रहने का अनुमान है।

वैश्विक आर्थिक डिविजन मॉनिटरिंग ब्रांच, इकोनॉमिक एनालिसिस और पॉलिसी डिविजन (यूएन डीईएएस) के प्रमुख हॉमिद रशीद ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने केवल इस साल ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर लगातार 6 फीसदी के ऊपर बनी हुई है और हमारा अनुमान है कि ये 2024 और 2025 में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई ज्यादा रही है इसके बावजूद भारत को ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और महंगाई दर में कमी आई है।इस बीच 5 जनवरी, 2024 को सांख्यिकी विभाग 2023-24 के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को जारी करेगा। ये माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 7 फीसदी के करीब जीडीपी के रहने का अनुमान जता सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिसंबर 2023 में मॉनिटरिंग पॉलिसी का एलान करते हुए 2023-24 के लिए 7 फीसदी जीडीपी रहने का अनुमान जता चुकी है।

### संयुक्त राष्ट्र ने बताया

#### 6.2 प्रतिशत जीडीपी का अनुमान

2025 में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई ज्यादा रही है इसके बावजूद भारत को ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और महंगाई दर में कमी आई है।इस बीच 5 जनवरी, 2024 को सांख्यिकी विभाग 2023-24 के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को जारी करेगा। ये माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 7 फीसदी के करीब जीडीपी के रहने का अनुमान जता सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिसंबर 2023 में मॉनिटरिंग पॉलिसी का एलान करते हुए 2023-24 के लिए 7 फीसदी जीडीपी रहने का अनुमान जता चुकी है।

## नडाल ने ब्रिस्बेन में एक और प्रभावशाली जीत दर्ज कर, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे



ब्रिस्बेन। स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल की एटीपी दूर में वापसी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के दूसरे दौर में शानदार जीत के साथ जारी रही। पूर्व विश्व नंबर 1, जो हाल ही में चोटों के कारण 12 महीने के लंबे ब्रेक के बाद एक्शन में लौटे, ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जेसन कुबलर को 6-1, 6-2 से हराया। 37 वर्षीय नडाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डेविनिफ थिएम के खिलाफ शानदार शुरुआती जीत के साथ शुरुआत की थी, हार्ड-कोर्ट एटीपी 250 इवेंट में उतनी ही प्रभावशाली जीत हासिल करके आगे बढ़े, जहां उन्होंने छोड़ा था। नडाल, जिन्होंने इस सप्ताह से पहले ब्रिस्बेन में चोट के कारण लगातार 12 महीने तक कोई

प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला था, उन्होंने 83 मिनट में कुबलर को पीछे छोड़ दिया। नडाल ने अपने ऑन-कोर्ट साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे टूट्ट संकल्प के साथ बहुत अच्छे खेलकर मैच को शुरुआत की। मैंने मैच से पहले जेसन के वीडियो देखे और मैंने उसे बेसलाइन से बहुत मजबूती से खेलते हुए देखा,

रहने के बाद दो जीत मुझे अच्छा महसूस कराती हैं। नडाल ने संकेत दिया कि 2024 उनका अंतिम सत्र हो सकता है, उन्होंने कहा, मुझे मैचों की जरूरत है, मुझे स्वास्थ्य की जरूरत है, मुझे अच्छा अभ्यास करने की जरूरत है और निश्चित रूप से यहां पिछले दो मैचों से मदद मिलती है, और यहां तक कि पहले दिन युगल भी। नडाल ने कहा, जो मेलबर्न में 14 से 28 जनवरी तक खेले जाने वाले आगामी ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने 22 ग्रैंड स्लेम एकल खिताबों में एक और जोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। नडाल ने साल का पहला ग्रैंड स्लेम दो बार 2009 और 2022 में जीता है।

### टीम इंडिया को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे 2 दिग्गज



नई दिल्ली। साध्य अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम जल्द ही वापस लौट आएगी। लेकिन ज्यादा दिन खिलाड़ियों को आराम मिलने की संभावना नहीं है। इसका कारण है अफगानिस्तान सीरीज। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20, तीन टेस्ट खेले, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी तक वापसी करने में नाकाम रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली सीरीज से पहले वे फिट हो जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ फोटो और वीडियो हार्दिक पांड्या के सामने आए हैं, वे जल्द से जल्द फिट होने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज से पहले नहीं हो पाएगी। ऐसे में माना जाना चाहिए कि हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान सीरीज नहीं खेल पाएंगे।

## टी20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी, नौ जून को होगा भारत-पाकिस्तान मैच

नई दिल्ली।आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 20 टीमें के बीच 1-29 जून के बीच होगा। पहला मैच एक जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। वहीं, फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। भारत का पहला मैच पांच जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा। वहीं, भारत पाकिस्तान मैच नौ जून को खेला जाएगा। भारत का तीसरा मैच 12 जून को अमेरिका और चौथा मैच 15 जून को कनाडा के साथ होगा। वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें भाग लेंगी। सभी टीमों को पांच-पांच टीम के चार रूप में बांटा गया है। भारत को रूप ए में पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका के साथ रखा गया है।

### टी20 विश्व कप 2024 में भारत का शेड्यूल

**5 जून** भारत बनाम आयरलैंड, न्यूयॉर्क  
**9 जून** भारत बनाम पाकिस्तान, न्यूयॉर्क  
**12 जून** भारत बनाम अमेरिका, न्यूयॉर्क  
**15 जून** भारत बनाम कनाडा, फ्लोरिडा

एक-एक मैच खेलेंगी। यहां से शीर्ष चार टीमों नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी।

नॉकआउट: सुपर-8 में बेहतर खेल दिखाने वाली सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। पहला सेमीफाइनल 26 जून और दूसरा सेमीफाइनल मैच 27 जून को होगा। इसके बाद दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच 29 जून को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका के तीन और वेस्टइंडीज के छह मैदानों पर होगा। 20 में से दस टीमों 29 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट का अपना पहला मैच अमेरिका में खेलेंगी, जिसमें 16 मैच लॉडरहल, डलास और न्यूयॉर्क में होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लांकबस्टर मुकाबला यू।नासाउ काउंटी अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में नौ जून को लॉग आउट होगा। वेस्टइंडीज में छह अलग-अलग द्वीपों में 41 मैच खेले जाएंगे, जिसमें सेमीफाइनल निर्निदाद और टोबैगो और गुयाना में होंगे और फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा।

### किस ग्रुप में कौन सी टीम

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका  
ग्रुप बी: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान  
ग्रुप सी: न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी  
ग्रुप: दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल  
लीग स्टेज: 1-18 जून के बीच खेला जाएगा। हर रूप की टीमों आपस में एक-एक मैच खेलेंगी। हर रूप की शीर्ष दो टीमों अगले चरण में जगह बनाएंगी। सुपर-8- 19-24 जून के बीच खेला जाएगा। हर रूप की शीर्ष दो टीमों यहां भाग लेंगी। कुल आठ टीमों आपस में



